

प्रेस विज्ञप्ति

सी ओ ई - जी डी सी संजौली, शिमला - 6

कैडेट कोर 7 एच पी इंडिपेंडेंट कम्पनी

“आज़ादी का अमृत महोत्सव : हर घर तिरंगा महा - अभियान
‘तिरंगे’ के अभिकल्पक श्रद्धेय पिंगली वेंकय्या को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि”

02/08/2022

भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने देश की आज़ादी की 75 वीं वर्षगांठ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने के दौरान देश के प्रत्येक नागरिक को अपने घरों में तिरंगा लगाने और/इसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हर घर तिरंगा योजना के लिए लोगों को और अधिक उत्साहित एवं जागरूक करने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है। जिसमें देश का कोई भी नागरिक झंडा लगा सकता है और अपने देशभक्ति को दिखाने के लिए तिरंगा झंडा के साथ सेल्फी लेकर इस वेबसाइट पर पोस्ट कर सकता है। इसी कड़ी में सी ओ ई-जी डी सी संजौली, शिमला - 6 की राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) इकाई ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता श्री पिंगली वेंकय्या को उनकी जयंती पर मंगलवार को श्रद्धांजलि दी और हर घर तिरंगा अभियान के तहत वेबसाइट <https://harghartriranga.com> और Pin a Flag के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर हर घर तिरंगा प्रमाण पत्र प्राप्त किये। सीओई-जीडीसी संजौली, शिमला-6 के प्रिंसिपल डॉ सी बी मेहता और कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राज गार्गी 7 एचपी पी इंडिपेंडेंट कम्पनी एनसीसी शिमला ने बताया कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और राज्य सरकार मिलकर इस महा -अभियान को सफल बनाने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है ताकि देश के प्रत्येक नागरिक के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जुड़ाव और लगाव और अधिक गहरा हो। उन्होंने कहा कि सीओई-जीडीसी संजौली, शिमला की राष्ट्रीय कैडेट कोर 7 एच पी इंडिपेंडेंट कम्पनी के कैडेट्स “हर घर तिरंगा अभियान” में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और विभिन्न सोशल मीडिया स्रोतों के माध्यम से आमजन को भी अपने घरों पर राष्ट्रध्वज फहराने को प्रेरित कर रहे हैं।



PRESS REPORT

COE-GDC SANJAULI, SHIMLA -6

7 HP (I) COY NCC

“AAZADI KA AMRIT MAHOTSAV: HAR GHAR TIRANGA MAHA-ABHIYAN”


TRIBUTES TO THE REVERED PINGALI VENKAYYA: THE DESINER OF

TRICOLOUR ON HIS BIRTH ANNIVERSARY

02/08/2022

The Prime Minister of India, Hon'ble Narendra Modi has started the **Har Ghar Tiranga campaign** to encourage every citizen of the country to hoist the tricolor in their homes while celebrating the **Aazadi Ka Amrit Mahotsav** on the **75th anniversary of the country's independence**. The **Union Ministry of Culture** has launched a website to make people more excited and aware of the **Har Ghar Tiranga Yojana**. In which any citizen of the country can put up the flag and to show his patriotism, take a selfie with the tricolor flag and post it on this website. In the same episode, the **National Cadet Corps (NCC)** unit of **CO E-GDC Sanjauli, Shimla - 6** paid tribute to the creator of the **Indian National Flag**, **Shri Pingali Venkayya** on his birth anniversary on Tuesday and under the '**Har Ghar Tiranga Abhiyan**' by registering online through <http://harghartriranga.com> and Pin a Flag, got the certificates. **Principal Dr CB Mehta, COE-GDC Sanjauli, Shimla-6** and **Commanding Officer Col Raj Gargey, 7 HP (I) COY NCC Shimla** said that the **Union Ministry of Culture** and the **State Governments** together are making effort to make this great campaign a success, so that every citizen of the country can feel deeper connection and attachment towards the freedom movement and the national flag. They said that the **cadets of 7 HP (I) COY NCC of COE-GDC Sanjauli, Shimla** are playing an important role in the **Har Ghar Tringa** campaign and are also motivating the general public to hoist the **National Flag** at their homes through various social media platforms.





प्रेस नोट

०२.८.२०२२

संजौली महाविद्यालय में आजादी का अमृत महोत्सव

उत्कृष्ट महाविद्यालय संजौली में 15 अगस्त तक आयोजित किये जाने वाले आजादी के अमृत महोत्सव एवं हर धर तिरंगा कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। प्राचार्य डॉ० सी० बी० मेहता के अनुसार इस सप्ताह महाविद्यालय में अनेक कार्यक्रम होंगे। जिसमें हर दिन कोई न कोई गतिविधि अवश्य होगी। संगीत विभाग द्वारा देशभक्तिपरक, समूह गान, एवं एकल गान होगा। साहित्य परिषद् द्वारा भाषण, कवितापाठ, चारालेखन और पोस्टर निर्माण द्वारा अमृत महोत्सव के विविध पहलुओं को उजागर किया जाएगा। खेलकूद प्रतियोगिताएं करवाई जाएगी। एक गांव को महाविद्यालय द्वारा तिरंगा और अमृत महोत्सव के लिए जोड़ लिया जाएगा। महाविद्यालय का प्रत्येक शिक्षक अपने निवास स्थान के आसपास कम से कम पांच घरों में तिरंगा फहराने के लिए लोगों को प्रेरित करेगा। सरकार के निर्देशानुसार विद्यार्थियों के साथ तिरंगा यात्रा एवं प्रभात फेरी निकाली जाएगी। अतएव आजादी के इस अमृत महोत्सव को हर्ष उल्लास के साथ गरीमाभय दृंग से मनाया जाएगा। ये सभी कार्यक्रम वरिष्ठ आचार्य डॉ० मूपैन्द्र ठाकुर, डॉ० भारती भागड़ा एवं डॉ० रामलाल शर्मा के कुशल निर्देशन में होंगे।

